

पर्यावरण एवं वन संचालक (वन्यप्राणी संरक्षण एवं वन विविधता संरक्षण सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक), छत्तीसगढ़

पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,

लॉधी रोड, नई दिल्ली-111003

फोन: 011-26119611/119612

फैक्स: 011-26119622/26119623

दिनांक/पत्र/संख्या-12/13/2007/...

समयपुर दिनांक 08/10/2013

श्री

संचालक,

इन्वायरनमेंट क्लीयरेंस सेल

भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय,

पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,

लॉधी रोड, नई दिल्ली-111003

विषय :- छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले (तत्कालीन सरगुजा जिला) में स्थित सामरी बॉक्साइट माईन्स, कुदाग बॉक्साइट माईन्स एवं टाटीझरिया बॉक्साइट माईन्स की क्षमता बढ़ाये हेतु इन्वायरनमेंट क्लीयरेंस।

- संदर्भ:-**
1. पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्रमांक J-11015/353/2007-IA.II(M) दिनांक 27 जुलाई 2007.
 2. पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्रमांक J-11015/337/2007-IA.II(M) दिनांक 27 जुलाई 2007.
 3. पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र क्रमांक J-11015/337/2007-IA.II(M) दिनांक 9 अगस्त 2007.

—0—

कृपया आपके उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा बलरामपुर जिले (पुराने सरगुजा जिले) के सामरी बॉक्साइट खुली खदान (1 LTPA) की क्षमता बढ़ाकर (5LTPA) करने, कुदाग बॉक्साइट खदान (0.4 LTPA) की क्षमता बढ़ाकर (0.6 LTPA) करने तथा टाटीझरिया बॉक्साइट खदान (0.5 TPA) की क्षमता बढ़ाकर (4 TPA) करने के परियोजना प्रस्ताव के संबंध में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची-1 के वन्यप्राणियों हेतु "वन्य प्राणी संरक्षण व प्रबंधन योजना" तैयार की जाकर इस कार्यालय की सहमति दिये जाने का लेख किया है।

1. विषयांकित परियोजना हेतु खदान के लीज के अनुबंध दिसंबर 1996 एवं जून 1998 में हस्ताक्षरित हुये थे। सामरी क्षेत्र में भारत सरकार पर्यावरण व वन मंत्रालय के आदेश क्रमांक J-11015/353/2007-IA.II/M दिनांक 27 जुलाई, 2007 द्वारा 2146.746 हे. में, कुदाग क्षेत्र में भारत सरकार पर्यावरण व वन मंत्रालय आदेश क्रमांक J-11015/354/2007-IA.II/M दिनांक 27 जुलाई 2007 द्वारा 377.116 हे. में, तथा टाटीझरिया में भारत सरकार पर्यावरण व वन मंत्रालय के आदेश क्रमांक J-11015/337/2007-IA.II/M दिनांक 9 अगस्त 2007 द्वारा 1218.762 हे. में बॉक्साइट खनन की स्वीकृति प्राप्त कर संस्था द्वारा खनन का कार्य किया जा रहा है।

वर्तमान प्रस्ताव में उपरोक्त क्षेत्रों में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए 10000 TPA से बढ़ाकर 50000 TPA किया जाना, कुदास के लिए 10000 TPA से बढ़ाकर 50000 TPA किया जाना एवं जलसंधारण के लिए 50000 TPA से बढ़ाकर 400000 TPA से बढ़ाकर प्रस्तावित है। भारत सरकार पर्यावरण व वन मंत्रालय के द्वारा उपरोक्त क्षेत्रों में वन्य प्राणी संरक्षण की स्वीकृति क्रमांक 1-11015/354/2007-IA.II/M दिनांक 27 जुलाई 2007, 1-11015/337/2007-IA.II/M दिनांक 27 जुलाई 2007 एवं 1-11015/337/2007-IA.II/M दिनांक 27 जुलाई 2007 द्वारा कुछ शर्तों के साथ दी गई है, जिसमें एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी उल्लेखित है कि संबंधित क्षेत्र में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम के शेड्यूल 1 के पाये जाने वाले वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु प्रबंध योजना तैयार की जाकर राज्य के मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक के अभिमत सहित प्रस्तुत किया जाये। जिसके पालन में संस्था द्वारा एक वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार की गयी है।

3. खनन क्षमता बढ़ाने से संबंधित प्रस्तावित तीनों ही परियोजनाओं के एक दूसरे से 4 कि.मी. की परिधि में स्थित होने एवं सभी के बफर क्षेत्र ओवरलैपिंग होने के कारण सभी के लिये संयुक्त रूप से वन्य प्राणी संरक्षण व प्रबंधन योजना तैयार की जाकर महाप्रबंधक, (खादान), हिन्डालको इन्डस्ट्रीज के पत्र क्रमांक HIL/SAM/300/2013 दिनांक 2.03.2013 द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसका समग्र रूप से परीक्षण किया गया। प्रस्तावित परियोजनाओं के फोर क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले ओवरलैपिंग बफर क्षेत्र में वन्य प्राणियों एवं उपलब्ध वनस्पतियों का सर्वे किया जाकर पाये गये स्पेसिज को परियोजना प्रस्ताव में अनेक्स्-4 के में उल्लेखित किया गया है।

4. उल्लेखित सूचि में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम के शेड्यूल 1 के वन्य प्राणी नहीं पाये गये हैं। परंतु इस कार्यालय द्वारा वन संरक्षक (वन्य प्राणी), सरगुजा से विगत दस वर्षों में वन्य प्राणियों द्वारा की गई क्षति की जानकारी चाही गयी। वन संरक्षक ने अपने पत्र क्रमांक 749 दिनांक 24.05.2012 से यह जानकारी उपलब्ध कराया है कि उक्त क्षेत्र में हाथियों का वर्ष 2005 में दो बार, वर्ष 2006 में आठ बार, वर्ष 2007 में एक बार, 2008 में दो बार, 2009 में सात बार आना जाना हुआ है। इसी प्रकार भालुओं के द्वारा वर्ष 2007-08 में आठ, वर्ष 2008-09 में पाँच, वर्ष 2009-10 में छः एवं 2010-11 में 4 जनहानि व जनघायल के प्रकरण तथा वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में तेंदुआ द्वारा पशु हानि के दो प्रकरण तथा लकड़बग्घे के कारण एक प्रकरण दर्ज किये गये हैं। इस प्रकार वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम के शेड्यूल 1 के उपरोक्त उल्लेखित वन्य प्राणियों के परियोजना क्षेत्र में आने जाने के प्रमाण पाये गये हैं। प्रस्तावित क्षेत्र से 6 से 7 कि.मी.की दूरी पर झारखंड राज्य में भेड़िया अभ्यारण्य भी स्थापित है। अतः संस्था द्वारा दस वर्षों के लिये वन्य प्राणी संरक्षण व प्रबंध योजना श्री पी. के. सेन पूर्व वन्य प्राणी अभिरक्षक, झारखंड से तैयार कराया जाकर प्रस्तुत किया गया है। जिसका समग्र व विस्तृत अध्ययन किया गया। प्रबंधन योजना में प्रस्तावित प्रबंधन संबंधित मुख्य गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है।

5. योजना में वन्य प्राणियों के लिये जलग्रहण क्षेत्र विकास, रहवास-विकास, पेयजल व्यवस्था, विभाग के क्षेत्रीय अमले के सहयोग से क्षेत्र में पेट्रोलिंग व मॉनिटरिंग, अग्नि सुरक्षा, ईको विकास की गतिविधियों, स्थानीय प्राणीओं के लिये आजीविका सृजन, टीकाकरण, जनजागृति कार्यक्रम जैसी गतिविधियों का

जानकारी के अनुसार रु. 180.00 लाख में प्रस्तावित परियोजना को अंजित करने से यह लगत
की वृद्धि होगी। परियोजना की लागत में वृद्धि होगी। परियोजना की लागत में वृद्धि होगी।
परियोजना की लागत में वृद्धि होगी। परियोजना की लागत में वृद्धि होगी।

- अनुमोदित परियोजना योजना की एक प्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया जन्यप्राणी संरक्षण योजना में
प्राथमिक शर्त रु. 180.00 लाख एकमुश्त जमा करने हेतु परियोजना प्रस्तावकों को आदेशित करने का कष्ट
करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

Alprakash
(रामप्रकाश) 01/12/13

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)

छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर दिनांक 02/10/2013

पृष्ठा क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध-12/13/2968.

प्रतिलिपि :-

- प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, महानदी मंत्रालय भवन, नया रायपुर की ओर मय योजना
की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।
- श्री एम. के. नारयंक, जी. एम. माइन्स हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, सामरी बॉक्सवर्ड माइन्स,
पोस्ट-कुसमी, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ की ओर मय योजना की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

Alprakash
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) 01/12/13
छत्तीसगढ़, रायपुर

TATIJHARIA BAUXITE MINE

Annexure B

Annexure-6
Details of Flora and Fauna

**ANNEXURE-6
DETAILS OF FLORA & FAUNA**

**TABLE-1
DETAILS OF DOMINANT PLANT SPECIES IN MINE LEASE AREA (CORE ZONE)**

Name of the plant Species	Local Name	Family
<i>Butea monosperma</i>	Palas	Fabaceae
<i>Acacia Arabica</i>	Babul	Mimosaceae
<i>Leucaena leucophloea</i>	Sabulal	Mimosaceae
<i>Mangifera indica</i>	Aam	Anacardiaceae
<i>Citrus lemon</i>	Nimbu	Rutaceae
<i>Emblica officinalis</i>	Amli	Euphorbiaceae
<i>Ficus hispida</i>	Jungli anjir	Moraceae
<i>Spondias cythera</i>	Kathjamun	Myrtaceae
<i>Tecunghia rotapa</i>	Badam	Combretaceae
<i>Apluda mutica</i>	Grass	Poaceae
<i>Cyperus doichosto</i>	Grass	Poaceae
<i>Dichanthum annulatum</i>	Grass	Poaceae
<i>Lipata cybocrica</i>	Grass	Poaceae
<i>Theonesta spachivalis</i>	Grass	Poaceae
<i>Arachis oblongifolia</i>	Grass	Poaceae
<i>Lycopodium laterale</i>	Grass	Poaceae
<i>Lycopodium tenella</i>	Grass	Poaceae
<i>Selaria glauca</i>	Grass	Cyperaceae
<i>Dyschidanthus maxillata</i>	Grass	Graminae
<i>Purpurella hysterophorus</i>	Congress grass	Compositae
<i>Cassia tora</i>	-	Caesalpinaceae
<i>Delonix regia</i>	Kachnar	Caesalpinaceae
<i>Albizia Sissoo</i>	Sissoo	Caesalpinaceae

**TABLE-2
FLORA/VEGETATION IN STUDY AREA (BUFFER ZONE)**

Sr. No.	Technical Name	Family	Life Form
I. Agricultural Crops			
1	<i>Hibiscus vulgare</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
2	<i>Sorghum vulgare</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
3	<i>Triticum vulgare</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
4	<i>Pennisetum</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
5	<i>Oryza sativa</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
6	<i>Pennisetum typhoides</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
II. Commercial Crops (including Vegetables)			
7	<i>Abelmoschus indicus</i>	Malvaceae	Therophyte
8	<i>Allium cepa</i>	Liliaceae	Geophyte
9	<i>Allium sativum</i>	Liliaceae	Geophyte
10	<i>Annona squamosa</i>	Annonaceae	Phanerophyte
11	<i>Arachis hypogea</i>	Fabaceae	Geophyte
12	<i>Carthamus pusillus</i>	Compositae	Therophyte
13	Cicer arietinum	Fabaceae	Hemicryptophyte
14	<i>Citrus lemon</i>	Rutaceae	Therophyte
15	<i>Coleocasia esculenta</i>	Areaceae	Geophyte
16	<i>Coriandrum sativum</i>	Umbelliferae	Hemicryptophyte
17	<i>Daucus carota</i>	Umbelliferae	Geophyte
18	<i>Lycopersicon esculentus</i>	Solanaceae	Therophyte
19	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	Phanerophyte
20	<i>Megpodia charantia</i>	Cucurbitaceae	Therophyte
21	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceae	Therophyte
22	<i>Psidium guava</i>	Myrtaceae	Phanerophyte
23	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	Geophyte
24	<i>Litchi chinensis</i>	Sapindaceae	Phanerophyte
III. Plantations			
25	<i>Bauhinia corimbosa</i>	Caesalpinaceae	Phanerophyte
26	<i>Acacia nilotica</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
27	<i>Albizia lebbek</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
28	<i>Albizia odoratissima</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
29	<i>Albizia procera</i>	Mimosaceae	Phanerophyte

Sr. No.	Technical Name	Family	Life Form
30	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	Phanerophyte
31	<i>Bauhinia variegata</i>	Caesalpinaceae	Phanerophyte
32	<i>Bauhinia purpuria</i>	Caesalpinaceae	Phanerophyte
33	<i>Bambusa arundinaceae</i>	Poaceae	Phanerophyte
34	<i>Butea monosperma</i>	Caesalpinaceae	Phanerophyte
35	<i>Butea frondosa</i>	Caesalpinaceae	Phanerophyte
36	<i>Eucalyptus sp.</i>	Myrtaceae	Phanerophyte
37	<i>Delonix regia</i>	Caesalpinaceae	Phanerophyte
38	<i>Leucena leucophloe</i>	Caesalpinaceae	Phanerophyte
IV. Natural Vegetation/Forest Type			
39	<i>Abrus precatorius</i>	Fabaceae	Therophyte
40	<i>Abutilon indicum</i>	Malvaceae	Phanerophyte
41	<i>Acacia Arabica</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
42	<i>Acacia auriculiformis</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
43	<i>Acacia catechu</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
44	<i>Acacia intinsia</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
45	<i>Acacia fernacea</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
46	<i>Acacia leucophloe</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
47	<i>Acacia lanceolata</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
48	<i>Acanthospermum hispidum</i>	Euphorbiaceae	Therophyte
49	<i>Achyranthes aspera</i>	Compositae	Therophyte
50	<i>Adathoda vasika</i>	Amaranthaceae	Therophyte
51	<i>Aerva coriifolia</i>	Rubiaceae	Therophyte
52	<i>Aegle marmelos</i>	Rutaceae	Phanerophyte
53	<i>Aerva lanata</i>	Compositae	Phanerophyte
54	<i>Ageratum conyzoides</i>	Compositae	Therophyte
55	<i>Ailanthus excelsa</i>	Simaroubaceae	Phanerophyte
56	<i>Albigium salivus</i>	Alangiaceae	Phanerophyte
57	<i>Albizia odoratissima</i>	Caesalpinaceae	Phanerophyte
58	<i>Albiza procera</i>	Caesalpinaceae	Phanerophyte
59	<i>Alstonia scholaris</i>	Apocynaceae	Phanerophyte
60	<i>Aletris athera sessilis</i>	Amaranthaceae	Phanerophyte
61	<i>Alysicarpus hamerous</i>	Fabaceae	Therophyte
62	<i>Anogeissus latifolia</i>	Combretaceae	Phanerophyte
63	<i>Anogeissus sericea</i>	Combretaceae	Phanerophyte
64	<i>Argemone mexicana</i>	Papaveraceae	Phanerophyte
65	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	Phanerophyte
66	<i>Bariola pflonbites</i>	Acanthaceae	Therophyte
67	<i>Bidens biternata</i>	Compositae	Therophyte
68	<i>Blepharis asperma</i>	Acanthaceae	Phanerophyte
69	<i>Borghis macaronesiensis</i>	Compositae	Therophyte
70	<i>Biuma latera</i>	Acanthaceae	Therophyte
71	<i>Boerhaavia chinensis</i>	Compositae	Therophyte
72	<i>Boerhaavia diffusa</i>	Nyctaginaceae	Therophyte
73	<i>Bombax ceiba</i>	Nyctaginaceae	Therophyte
74	<i>Borreria hispida</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
75	<i>Borreria stricta</i>	Rubiaceae	Therophyte
76	<i>Boswellia serrata</i>	Rubiaceae	Therophyte
77	<i>Brassica campestris</i>	Cruciferae	Phanerophyte
78	<i>Bridelia retusa</i>	Euphorbiaceae	Therophyte
79	<i>Bridelia superba</i>	Euphorbiaceae	Phanerophyte
80	<i>Caesalpinia pucherana</i>	Caesalpinaceae	Phanerophyte
81	<i>Catolopis procera</i>	Asclepiadaceae	Phanerophyte
82	<i>Canthium diddymum</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
83	<i>Capparis aphylla</i>	Cappariaceae	Therophyte
84	<i>Capparis deciduas</i>	Cappariaceae	Phanerophyte
85	<i>Carissa carandus</i>	Apocynaceae	Phanerophyte
86	<i>Carissa spinarium</i>	Apocynaceae	Phanerophyte
87	<i>Casearia graveolens</i>	Samiydiaceae	Phanerophyte
88	<i>Cassia absus</i>	Caesalpinaceae	Phanerophyte
89	<i>Cassia absip</i>	Caesalpinaceae	Phanerophyte
90	<i>Cassia auriculata</i>	Caesalpinaceae	Therophyte
91	<i>Cassia occidentalis</i>	Caesalpinaceae	Therophyte
92	<i>Cassia tora</i>	Caesalpinaceae	Therophyte
93	<i>Cestrum diurnum</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
94	<i>Cestrum nocturnum</i>	Rubiaceae	Therophyte

Sr. No.	Technical Name	Family	Life Form
95	<i>Chloris variegata</i>	Poaceae	Therophyte
96	<i>Cissus quadrangularis</i>	Vitaceae	Therophyte
97	<i>Citrus limon</i>	Rutaceae	Phanerophyte
98	<i>Cleome gynandra</i>	Capparidaceae	Therophyte
99	<i>Cobretum ovalifolium</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
100	<i>Cordia myxa</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
101	<i>Crotalaria medicogenia</i>	Fabaceae	Therophyte
102	<i>Croton bonplandinum</i>	Amaryllidaceae	Therophyte
103	<i>Cuscuta reflexa</i>	Cuscutaceae	Epiphyte
104	<i>Datura fastuosa</i>	Solanaceae	Therophyte
105	<i>Datura metal</i>	Solanaceae	Therophyte
106	<i>Desmodium triflorum</i>	Asclepiadaceae	Therophyte
107	<i>Diospyros melanoxylon</i>	Lythraceae	Phanerophyte
108	<i>Diospyros Montana</i>	Lythraceae	Phanerophyte
109	<i>Echinops echinatus</i>	Compositae	Therophyte
110	<i>Eclipta prostrate</i>	Compositae	Hemicryptophyte
111	<i>Emitica officinale</i>	Euphorbiaceae	Phanerophyte
112	<i>Eriola lajerum</i>	Compositae	Hemicryptophyte
113	<i>Erythrina indica</i>	Papilionaceae	Phanerophyte
114	<i>Euphorbia geniculata</i>	Euphorbiaceae	Therophyte
115	<i>Euphorbia hirta</i>	Euphorbiaceae	Therophyte
116	<i>Euphorbia hypericifolia</i>	Euphorbiaceae	Therophyte
117	<i>Euphorbia nerum</i>	Euphorbiaceae	Therophyte
118	<i>Euphorbia nivula</i>	Euphorbiaceae	Therophyte
119	<i>Euphorbia pilulifera</i>	Euphorbiaceae	Hemicryptophyte
120	<i>Euphorbia tricauli</i>	Euphorbiaceae	Hemicryptophyte
121	<i>Evolvulus alsinoides</i>	Convolvulaceae	Therophyte
122	<i>Evolvulus numularis</i>	Convolvulaceae	Therophyte
123	<i>Feronia elephantum</i>	Rutaceae	Phanerophyte
124	<i>Ficus benghalensis</i>	Moraceae	Phanerophyte
125	<i>Ficus carica</i>	Moraceae	Phanerophyte
126	<i>Ficus glomerata</i>	Moraceae	Phanerophyte
127	<i>Ficus hispida</i>	Moraceae	Phanerophyte
128	<i>Ficus racemosa</i>	Moraceae	Phanerophyte
129	<i>Ficus religiosa</i>	Moraceae	Phanerophyte
130	<i>Ficus gibbosa</i>	Moraceae	Phanerophyte
131	<i>Gardenia latifolia</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
132	<i>Gardenia lucida</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
133	<i>Garuga pinnata</i>	Burseraceae	Phanerophyte
134	<i>Glossocardia bosvelia</i>	Compositae	Hemicryptophyte
135	<i>Gmelina arborea</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
136	<i>Gomphrena globosa</i>	Amaranthaceae	Therophyte
137	<i>Gossypium herbaceum</i>	Malvaceae	Therophyte
138	<i>Grewia abutilifolia</i>	Tiliaceae	Phanerophyte
139	<i>Grewia salivifolia</i>	Tiliaceae	Phanerophyte
140	<i>Grewia subinaequalis</i>	Tiliaceae	Phanerophyte
141	<i>Gynandropsis gynandra</i>	Capparidaceae	Hemicryptophyte
142	<i>Heliotropis icora</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
143	<i>Heliotropium indicum</i>	Rubiaceae	Hemicryptophyte
144	<i>Heliotropium ovalifolium</i>	Rubiaceae	Hemicryptophyte
145	<i>Hemidesmus indicus</i>	Asclepiadaceae	Phanerophyte
146	<i>Hibiscus caesus</i>	Malvaceae	Hemicryptophyte
147	<i>Holarrhena antidysenterica</i>	Asclepiadaceae	Phanerophyte
148	<i>Holostemma annularia</i>	Asclepiadaceae	Phanerophyte
149	<i>Hydrophylla auriculata</i>	Acanthaceae	Hemicryptophyte
150	<i>Hyptis suaveolens</i>	Labiatae	Therophyte
151	<i>Ichnocarpus frutes</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
152	<i>Impatiens balsamiana</i>	Balsaminaceae	Therophyte
153	<i>Indigofera hirsute</i>	Caesalpinaceae	Therophyte
154	<i>Indigofera tinctoria</i>	Caesalpinaceae	Therophyte
155	<i>Indigofera tinctoria</i>	Caesalpinaceae	Therophyte
156	<i>Ipomea aquatica</i>	Convolvulaceae	Hydrophyte
157	<i>Ipomea coccinea</i>	Convolvulaceae	Therophyte
158	<i>Ipomea tuba</i>	Convolvulaceae	Hemicryptophyte
159	<i>Ixora arborea</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
160	<i>Ixora parviflora</i>	Rubiaceae	Phanerophyte

Sr. No.	Technical Name	Family	Life Form
161	<i>Ixora singaporensis</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
162	<i>Jasminum arborescens</i>	Oleaceae	Phanerophyte
163	<i>Jatropha gossypifolia</i>	Euphorbiaceae	Therophyte
164	<i>Jussiaea suffruticosa</i>	Onagraceae	Hydrophyte
165	<i>Justia diffusa</i>	Acanthaceae	Therophyte
166	<i>Justicia diffusa</i>	Acanthaceae	Therophyte
167	<i>Lactuca punctata</i>	Compositae	Therophyte
168	<i>Lantana coramandavica</i>	Anacardiaceae	Phanerophyte
169	<i>Lantana grandis</i>	Anacardiaceae	Phanerophyte
170	<i>Lantana procumbens</i>	Anacardiaceae	Therophyte
171	<i>Lantana camara</i>	Verbinaceae	Phanerophyte
172	<i>Lawsonia inermis</i>	Lythraceae	Phanerophyte
173	<i>Lepidogathis cristata</i>	Acanthaceae	Therophyte
174	<i>Leptodenia reticulata</i>	Asclepiadaceae	Phanerophyte
175	<i>Leucas aspera</i>	Labiatae	Therophyte
176	<i>Leucas longifolia</i>	Labiatae	Therophyte
177	<i>Leucas longifolia</i>	Labiatae	Therophyte
178	<i>Leucena leucophloea</i>	Caesalpiniaceae	Phanerophyte
179	<i>Lindenbergia indica</i>	Scrophulariaceae	Therophyte
180	<i>Lindenbergia ciliata</i>	Scrophulariaceae	Therophyte
181	<i>Lophophora trinervis</i>	Scrophulariaceae	Geophyte
182	<i>Luffa acutangula</i>	Cucurbitaceae	Therophyte
183	<i>Lycopersicon esculentus</i>	Solanaceae	Therophyte
184	<i>Madhuca latifolia</i>	Segotaceae	Phanerophyte
185	<i>Malilotus philippinus</i>	Euphorbiaceae	Phanerophyte
186	<i>Malvastrum coramandalicum</i>	Malvaceae	Therophyte
187	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	Phanerophyte
188	<i>Marselia quadrifolia</i>	Marseliaceae	Phanerophyte
189	<i>Melia azadirachta</i>	Meliaceae	Phanerophyte
190	<i>Memordica dioica</i>	Cucurbitaceae	Therophyte
191	<i>Merremia emergens</i>	Convolvulaceae	Therophyte
192	<i>Michalea champaca</i>	Annonaceae	Phanerophyte
193	<i>Millingtonia hirta</i>	Bignoniaceae	Phanerophyte
194	<i>Mimosa hamata</i>	Mimosaceae	Therophyte
195	<i>Mitragyna parviflora</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
196	<i>Mollugo cerviana</i>	Aizoaceae	Therophyte
197	<i>Mollugo hirta</i>	Aizoaceae	Therophyte
198	<i>Moringa oleifera</i>	Moringaceae	Phanerophyte
199	<i>Morus alba</i>	Moraceae	Phanerophyte
200	<i>Mucuna pruri</i>	Papilionaceae	Hemicryptophyte
201	<i>Murraya exotica</i>	Rutaceae	Phanerophyte
202	<i>Murraya koenigii</i>	Rutaceae	Phanerophyte
203	<i>Musa paradisiaca</i>	Musaceae	Therophyte
204	<i>Nymphia sp</i>	Magnoliaceae	Hydrophyte
205	<i>Ocimum americanum</i>	Labiatae	Therophyte
206	<i>Ocimum basilium</i>	Labiatae	Therophyte
207	<i>Ocimum canum</i>	Labiatae	Therophyte
208	<i>Ocimum sanctum</i>	Labiatae	Therophyte
209	<i>Oldenlandia umbellata</i>	Convolvulaceae	Therophyte
210	<i>Oldenlandia corymbosa</i>	Rubiaceae	Therophyte
211	<i>Ocoteina oolensis</i>	Papilionaceae	Phanerophyte
212	<i>Opuntia dilinii</i>	Opuntiaceae	Therophyte
213	<i>Opuntia elator</i>	Cactaceae	Therophytesq
214	<i>Oxalis corniculata</i>	Oxalidaceae	Therophyte
215	<i>Panicum usillria</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
216	<i>Panicum polatum</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
217	<i>Papaver somniferum</i>	Papaveraceae	Hemicryptophyte
218	<i>Parkinsonia aculeata</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
219	<i>Parthenium hysterophorus</i>	Compositae	Therophyte
220	<i>Paspalum strobilanthus</i>	Pasifloraceae	Hemicryptophyte
221	<i>Passiflora foetida</i>	Passifloraceae	Phanerophyte
222	<i>Pavonia zeylanica</i>	Malvaceae	Phanerophyte
223	<i>Peltopharum ferruginum</i>	Caesalpiniaceae	Phanerophyte
224	<i>Phoenix aculis</i>	Palmae	Phanerophyte
225	<i>Phyllanthus asperuletus</i>	Euphorbiaceae	Phanerophyte
226	<i>Phyllanthus emblica</i>	Euphorbiaceae	Phanerophyte

Sr. No.	Technical Name	Family	Life Form
227	<i>Phyllanthus niruri</i>	Euphorbiaceae	Therophyte
228	<i>Phyllanthus reticulatus</i>	Euphorbiaceae	Therophyte
229	<i>Physalis minima</i>	Solanaceae	Therophyte
230	<i>Pithecolobium dulce</i>	Mimosaceae	Phanerophyte
231	<i>Polyalthia longifolia</i>	Annonaceae	Phanerophyte
232	<i>Polygala erectora</i>	Polygalaceae	Therophyte
233	<i>Pongamia pinnata</i>	Fabaceae	Phanerophyte
234	<i>Portulaca oleracea</i>	Portulacaceae	Therophyte
235	<i>Psidium guajava</i>	Myrtaceae	Phanerophyte
236	<i>Punica granatum</i>	Punicaceae	Therophyte
237	<i>Randia dumetorum</i>	Rubiaceae	Phanerophyte
238	<i>Rosa indica</i>	Rosaceae	Therophyte
239	<i>Rosa machata</i>	Rosaceae	Therophyte
240	<i>Saccharum munja</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
241	<i>Saccharum officinarum</i>	Poaceae	Therophyte
242	<i>Salmalia malabarica</i>	Salmaliaceae	Phanerophyte
243	<i>Sapindus emarginatus</i>	Sapindaceae	Phanerophyte
244	<i>Scheuchera trijuga</i>	Combretaceae	Phanerophyte
245	<i>Schebera sweetenoides</i>	Sapindaceae	Phanerophyte
246	<i>Scheuchera oleosa</i>	Sapindaceae	Phanerophyte
247	<i>Sesamum indicum</i>	Pedaliaceae	Hemicryptophyte
248	<i>Sitorea robusta</i>	Dipterocarpaceae	Phanerophyte
249	<i>Sida acuminata</i>	Malvaceae	Phanerophyte
250	<i>Sida veranifolia</i>	Malvaceae	Hemicryptophyte
251	<i>Solanum nigrum</i>	Solanaceae	Therophyte
252	<i>Solanum xanthocarpum</i>	Solanaceae	Therophyte
253	<i>Sterculia villosa</i>	Tiliaceae	Therophyte
254	<i>Stereospermum chinensis</i>	Bignoniaceae	Phanerophyte
255	<i>Syzygium cumini</i>	Myrtaceae	Phanerophyte
256	<i>Tamarindus indica</i>	Caesalpinaceae	Phanerophyte
257	<i>Tecomella undulata</i>	Bignoniaceae	Therophyte
258	<i>Tectona grandis</i>	Verbinaceae	Phanerophyte
259	<i>Tephrosia purpuria</i>	Fabaceae	Therophyte
260	<i>Terminalia bellarica</i>	Combretaceae	Phanerophyte
261	<i>Terminalia chebula</i>	Combretaceae	Phanerophyte
262	<i>Terminalia tomentosa</i>	Combretaceae	Phanerophyte
263	<i>Tinospora cordifolia</i>	Rhamnaceae	Therophyte
264	<i>Tragus biflorus</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
265	<i>Tribulus terrestris</i>	Zygophyllaceae	Therophyte
266	<i>Tridax procumbens</i>	Compositae	Therophyte
267	<i>Triumferta pilosa</i>	Tiliaceae	
268	<i>Vernonia cinera</i>	Compositae	Therophyte
269	<i>Vicia indica</i>	Compositae	Phanerophyte
270	<i>Vitex Negundo</i>	Verbinaceae	Phanerophyte
271	<i>Vitex negundo</i>	Verbinaceae	Therophyte
272	<i>Vitis veruifera</i>	Vitaceae	Therophyte
273	<i>Viverra zizanoides</i>	Poaceae	Therophyte
274	<i>Wrightia tomentosa</i>	Apocyanaceae	Phanerophyte
275	<i>Xanthium strumarium</i>	Compositae	Therophyte
276	<i>Yucca gloriosa</i>	Agavaceae	Therophyte
277	<i>Zyzyphus jugube</i>	Rhamnaceae	Phanerophyte
278	<i>Zyzyphus mauritiana</i>	Rhamnaceae	Phanerophyte
V. Grasslands			
279	<i>Apluda mutica</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
280	<i>Ciliaris dolichosta</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
281	<i>Cyanodactylon sp</i>	Poaceae	Geophyte
282	<i>Dichanthium annulatum</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
283	<i>Impati cylindrica</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
284	<i>Saccharum spontaneum</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
285	<i>Themeda quadrivalvis</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
286	<i>Aristida adscensionis</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
287	<i>Cenchrus ciliaris</i>	Poaceae	Therophyte
288	<i>Cenchrus setigera</i>	Poaceae	Therophyte
289	<i>Cymbopogon jwarancusa</i>	Cyperaceae	Hemicryptophyte
290	<i>Cyperus aristatus</i>	Cyperaceae	Therophyte
291	<i>Cyperus triceps</i>	Cyperaceae	Therophyte

Sr. No.	Technical Name	Family	Life Form
292	<i>Dactyloctenium aegyptium</i>	Poaceae	Therophyte
293	<i>Digitaria bicornis</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
294	<i>Digitaria Setetaria</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
295	<i>Eragrostis tefera</i>	Poaceae	Therophyte
296	<i>Eragrostis tenella</i>	Poaceae	Therophyte
297	<i>Ischaemum rigidum</i>	Poaceae	Hemicryptophyte
298	<i>Setaria glauca</i>	Cyperaceae	Hemicryptophyte
299	<i>Eulaliopsis binata</i>	Graminae	Hemicryptophyte
300	<i>Thysanotena maxima</i>	Graminae	Hemicryptophyte
	Endangered plants	No endangered plant species observed during study period and also from records of Botanical Survey of India (Red data of Books of Indian Plants)	

TABLE-3
FAUNA AND THEIR CONSERVATION STATUS FROM MINE LEASE AREA (CORE ZONE)


Technical Name	English Name/ Local Name	Wild Life Protection Act (1972) Status
Aves		
<i>Phalacrocorax niger</i>	Little cormorant	Sch-IV
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Night heron	Sch-IV
<i>Ardeola grayii grayii</i>	Paddy bird	Sch-IV
<i>Bubulcus ibis coromandus</i>	Water egret	Sch-IV
<i>Eudynamis scolopacea</i>	Indian keel	Sch-IV
<i>Meops philippinus philippinus</i>	Blue-tailed bee-eater	Sch-IV
<i>Dinopium benghalense tehinac</i>	Malabar golden backed Woodpecker	Sch-IV
<i>Acridotheres tristis tristis</i>	Common myna	Sch-IV
<i>Nectarinia minima</i>	Small sunbird	Sch-IV
<i>Passer domesticus indicus</i>	Indian house sparrow	Sch-IV
Butterflies		
<i>Hypolimnitis bolina</i> Lin.	Green grassfly	
<i>Euploea core</i> Crasner	Common crow	
<i>Hepta hylas</i> Moore	Common sailor	
<i>Euretia hecabe</i> Lin.	Common grass yellow	
<i>Pierisica aples</i> Stoll.	Glassy tiger	
Mammals		
<i>Funambulus palmarum</i>	Squirrel	Sch-IV
<i>Sus scrofa</i>	Wild pig	Sch-III
<i>Herpestes edwardi</i>	Common mongoose	Sch-IV
<i>Vulpus benghalensis</i>	Wild fox	Sch-II
<i>Hystrix indica</i>	Porcupine	Sch-IV

TABLE-4
FAUNA AND THEIR CONSERVATION STATUS IN STUDY AREA (BUFFER ZONE)

Technical Name	English Name/Local Name	Wild Life Protection Act (1972)
Aves		
<i>Phalacrocorax niger</i>	Little cormorant	Sch-IV
<i>Ardea purpurea menilensis</i>	Eastern purple heron	Sch-IV
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Night heron	Sch-IV
<i>Ardeola grayii grayii</i>	Paddy bird	Sch-IV
<i>Upetor flavicollis</i>	Black bittern	Sch-IV
<i>Ardea alba modesta</i>	Large egret	Sch-IV
<i>Bubulcus ibis coromandus</i>	Water egret	Sch-IV
<i>Milvus migrans gyvinda</i>	Common pariah kite	Sch-IV
<i>Haliastur indus indus</i>	Eastern kite	Sch-IV
<i>Varellus indicus indicus</i>	Belted lapwing	Sch-IV
<i>Tringa hypoleucos</i>	Common sandpiper	Sch-IV
<i>Gelochelidon nilotica nilotica</i>	Gull-billed tern	Sch-IV
<i>Eudynamis scolopacea</i>	Indian keel	Sch-IV
<i>Halcyon smyrnensis fusca</i>	Indian white-breasted Kingfisher	Sch-IV
<i>Meops philippinus philippinus</i>	Blue-tailed bee-eater	Sch-IV

Technical Name	English Name/Local Name	Wild Life Protection Act (1972)
<i>Cerucius benghalensis indica</i>	Southern Indian Roller	Sch-IV
<i>Trochilium benghalense tehrimae</i>	Maiber golden backed Woodpecker	Sch-IV
<i>Acridotheres tristis tristis</i>	Common myna	Sch-IV
<i>Corvus splendens protegatus</i>	Ceylon house crow	Sch-IV
<i>Nectarinia minima</i>	Small sunbird	Sch-IV
<i>Nectarinia zeylonica sola</i>	Indian purple rumped sunbird	Sch-IV
<i>Arachnothera longirostris longirostris</i>	Little spider hunter	Sch-IV
<i>Passer domesticus indicus</i>	Indian house sparrow	Sch-IV
<i>Copsychus saularis ceylonensis</i>	Southern magpie-robin	Sch-IV
<i>Othotomus sutorius</i>	Tailor bird guzurata	Sch-IV
<i>Pavocristatus</i>	Peacock	Part-III of Sch-I
Amphibians		
<i>Rana tigrana</i>	Common frog	Sch-IV
<i>Bufo melanostictus</i>	Toad	Sch-IV
Reptiles		
<i>Crotalus variscolor</i>	Lizard	Sch-IV
<i>Chamaeleon zeylanicus</i>	Indian chamaeleon	Sch-II
<i>Lycodon sp.</i>	Wolf snake	Sch-III
<i>Boiga spp.</i>	Cat snake	Sch-III
<i>Bungarus spp.</i>	Krait	Sch-II
<i>Naja naja</i>	Indian cobra	Sch-III
<i>Vipera spp.</i>	Russett viper	Sch-III
<i>Python sp.</i>	Python sp.	Sch-I
Butterflies		
<i>Pachliopta hector Lin.</i>	Crimson rose	-
<i>Papilio demoleus Lin.</i>	Lime butterfly	-
<i>Graphium agamemnon Lin.</i>	Tailed jay	-
<i>Junonia almana Lin.</i>	Peacock pansy	-
<i>Hypolimnas bolina Lin.</i>	Great emerald	-
<i>Euploea core Gramer</i>	Common crow	-
<i>Neptis hylas Moore</i>	Common sailor	-
<i>Euremia hecabe Lin.</i>	Common grass yellow	-
<i>Catopsilia sp.</i>	Emigrant	-
Mammals		
<i>Rattus sp.</i>	Rat	Sch-IV
<i>Lepus nigricollis</i>	Hare	Sch-IV
<i>Canis aureus</i>	Jackal	Sch-III
<i>Presbytis mitellus</i>	Langur	Sch-II
<i>Presbytis playrei</i>	Monkey	Sch-I
<i>Funambulus spp.</i>	Squirrel	Sch-IV
<i>Funambulus palmarum</i>	Squirrel	Sch-IV
<i>Sus scrofa</i>	Wild pig	Sch-III
<i>Rattus norvegicus</i>	Field mouse	Sch-V
<i>Rattus rattus</i>	House rat	Sch-V
<i>Rhinolopus spp.</i>	Bat	Sch-V
<i>Hipposiderus spp.</i>	Bat	Sch-V
<i>Herpestes edwardi</i>	Common mongoose	Sch-IV
<i>Bandicota indica</i>	Bandicoot	Sch-V
<i>Bandicota bengalensis</i>	Bandicoot	Sch-V
<i>Vulpus benghalensis</i>	Wild fox	Sch-III
<i>Melurus ursinus</i>	Bear	Sch-III
<i>Hystrix indica</i>	Porcupine	Sch-IV
<i>Axis axis</i>	Spotted deer	Part-I of Sch-I
<i>Canis lupasaliipes</i>	Indian wolf	Part-I of Sch-I
<i>Mellivora cepensis</i>	Indian Ratel	Part-I of Sch-I
<i>Elephas maximus</i>	Indian Elephant	Part-I of Sch-I
<i>Felis chaus</i>	Jungle cat	Part-II of sch-II
<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	Indian Small civet	Part-I of sch-I
<i>Muntiacus muntiacus</i>	Barking Jeer	Sch-III
<i>Macaca mulata</i>	Monkey	Part-I of Sch-I

Annexure-C




**View of one small old inactive OB dump stabilized by vegetation with suitable native species at
Tatijharia Lease**

1001

Year	Kudaj Bauxite Mines		Samn Bauxite Mines		Tatibarda Bauxite Mines		Total	
	No. of Sapling	Area in hect.	No. of Sapling	Area in hect.	No. of Sapling	Area in hect.	No. of Sapling	Area in hect.
1998-99	900	0.1	0	0	0	0	900	0.1
1999-00	7000	2.58	0	0	0	0	7000	2.58
2000-01	7500	3.21	0	0	0	0	7500	3.21
2001-02	10000	5.01	0	0	0	0	10000	5.01
2002-03	4000	1.86	3800	2.44	0	0	7800	4
2003-04	4200	2.57	5500	2.81	0	0	9700	5.38
2004-05	6750	2.8	8222	2.8	2000	1	16972	6.7
2005-06	800	0.5	11100	3.8	8700	3.4	20600	7.7
2006-07	4940	2	16510	6.884	8190	3.3	29640	12.184
2007-08	2950	1.3	18880	7.75	6390	2.5	28220	11.55
2008-09	32200	12.72	5000	2.47	3000	1.5	40200	16.69
2009-10	15700	6.20	15100	6.00	7850	3.20	38650	15.40
2010-11	1500	0.600	18325	7.200	8750	3.400	28575	11.200
2011-12	3015	1.200	11575	4.600	3370	1.380	17960	7.180
2012-13	1200	0.500	12400	5.080	4600	1.900	18200	7.400
2013-14	950	0.400	8700	3.500	4875	2.000	14525	6.900
2014-15	5575	2.230	12850	5.150	7750	3.100	26175	10.480
2015-16	4000	1.600	10139	4.050	7500	3.000	21639	8.650
2016-17	4390	2.800	9110	3.700	5950	2.400	19450	8.900
2017-18	2950	1.220	11681	4.970	8898	3.540	23509	9.730
2018-19	2780	1.110	19730	7.900	19967	7.990	42477	17.080
2019-20	2980	1.200	34380	31.590	32715	18.970	70085	51.780
2020-21	4885	2.405	36180	16.918	28739	12.819	69784	32.142
2021-22	5700	1.804	50822	13.349	32794	11.557	89116	36.510
Total	136865	57.519	319754	142.831	202008	86.936	668627	287.336

Annexure-E



Photographs of Pond and RWH Structure

[Handwritten signature]




A View of Pears Plantation



View of Digital Water Meter Installed in the Lease area





**Photographs of Plantation along the Boundary of Safety Zone and
plantation along the Road Side (Green Belt Development)**

Lease - Tatijharia





ANNEXURE -F



View of Black top road constructed up to pit head to reduce dust problem.

Annexure - G

Hindalco Industries Ltd.


Mines Division, Samri

19.05.2021

Environment Management Cell

An Environment Management Cell is re-constituted by the following members which is compliance of the EC conditions for the Samri, Kudag and Tatijharia Bauxite Mines.

<u>S.No.</u>	<u>Name</u>	<u>Designation</u>	<u>Position</u>
1.	Mr. Vijay Chauhan	Agent of Mines	Chairman
2.	Mr. Amit Tiwary	Manager-Mines	Secretary
3.	Mr. Tapas Gachhayat	Manager – Geology	Member
4.	Mr. R.K.Sinha	Manager- Mines	Member
5.	Dr. M Kumar	Sr. Medical Officer	Member
6.	Mr. K K Singh	Dy. Manager- Mines	Member
7.	Mr. Manoj Dixit	Assistant Manager- Geology	Member
8.	Mr. C S Prasad	Dy. Officer – Lab.	Member


(Vijay Chauhan)

Agent of Mines


Agent of Mines
Samri Mines Division
Hindalco Industries Ltd

पत्र //

जानकारी के लिए कि यह पत्र जारी करने के लिए आवश्यक है कि यह पत्र नगर पंचायत के द्वारा जारी किया जाये।

(सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पर)
नाम
पता

1. 20 अंक दिए जा सकेंगे।
2. पत्र पर अधिकतम 10 अंक की प्राप्ति होगी।
3. अक्षरों के लिए लिखित स्वीकृति देना आवश्यक है।
4. पत्र पर पत्रकारिता के अर्थ में कोई भी अर्थ नहीं है।
5. पत्र पर पत्रकारिता के अर्थ में कोई भी अर्थ नहीं है।

पत्र पर पत्रकारिता के अर्थ में कोई भी अर्थ नहीं है।
पत्र पर पत्रकारिता के अर्थ में कोई भी अर्थ नहीं है।
पत्र पर पत्रकारिता के अर्थ में कोई भी अर्थ नहीं है।

दिनांक 02.10.2007 के द्वारा 6 बजे भर्ती स्थल पर भी जायेंगे।

नगर पंचायत
नगर पंचायत अधिकारी


हेतु आवेदन पत्र

संयोजित
अधिकारी द्वारा
अभिप्रेत
पत्रकारिता के अर्थ में

सेवा
सेवा

प्रमाण पत्र //

1/20235
अक्षरों के अक्षर



आयिकापुर/ लखन कलश सेटल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता सहित राजीव स्वर्णकार कोषाध्यक्ष राजेश सिंह सहित लखन विजय जायसवाल कनक गुप्ता गंगन अग्रवाल, लक्ष्मी प्रकाश जायसवाल, सुरेन्द्र सिंह छाबड़ा, रविन्द्र छाबड़ा, एच.एस. जायसवाल रकेश अग्रवाल, पीक भोहिया, एन.जे. जोसेफ सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
आज हुई सामान्य सभा की



हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
(सामरी खान प्रभाग)
सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली से उनके पत्र क्रमांक जे. 11015/337/2007-IA.II(M) दिनांक 09.08.2007 के तहत हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के टाटीडरिया बॉक्ससाईट खदान की क्षमता विस्तार (0.40 मिलियन टन बॉक्ससाईट उत्पादन प्रतिवर्ष) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति अनुमोदित होकर प्राप्त हो चुकी है। उपरोक्त स्वीकृति पत्र को प्रतिनिधि ए.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल कार्यालय में उपलब्ध है एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाईट <http://envfor.nic.in> पर भी देखी जा सकती है।

भवदीय
हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
सामरी खान प्रभाग

अक्षर आम्बिकावाणी 12 अगस्त 2007


Agent of Mines
Barn Mines Division
Hindalco Industries Ltd

हेतु निर्देशित किया है।

स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित

राजपुर। क्षेत्रगतत दूरस्थ ग्रामों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा परीक्षण एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें रीकड़ों लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मौसमी बीमारियों को देखते हुए पंचायत करजी वधवा कटवा, मदनेश्वर, भटगाँव में शिविर आयोजित किया गया। डॉक्टरों को नि:शुल्क दवाईयाँ बाँटी। खण्ड। चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रो. राम ने बताया कि शिविर के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ बीमारी के बारे में पता लगाना है। गाँव के लोग छोटी छोटी बीमारी में चिकित्सालय नहीं आते हैं, जिससे यह बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि ऐसे बीमारी को शुरू में ही समाप्त किया जाय। शिविर में डॉक्टर के अलावा डिपो हेल्पर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहित मितामित शामिल रहते हैं।

सूरजपुर में संसदीय सचिव करेंगे ध्वजारोहण

सूरजपुर। स्वतंत्रता दिवस की 60 वीं वर्षगांठ पर सूरजपुर के जिला स्तरीय आयोजन में संसदीय सचिव एवं विधायक रामसेवक पैकर ध्वजा रोहण करेंगे।



रक्षानीय रेलवे आरक्षण केन्द्र में रोज-रोज लिंक फाल होने एवं स्टाफ की गजबूरी बन गई है।



हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

(सामरी खान प्रभाग)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली से उनके पत्र क्रमांक जे.11015/337/2007-IA.II(M) दिनांक 09.08.2007 के तहत हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के टाटीझरिया बाँक्साईट खादान की क्षमता विस्तार (0.40 मिलियन टन बाँक्साईट उत्पादन प्रतिवर्ष) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति अनुमोदित होकर प्राप्त हो चुकी है। उपरोक्त स्वीकृति पत्र की प्रतिलिपि छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल कार्यालय में उपलब्ध है एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाईट <http://envfor.nic.in> पर देखी जा सकती है।

भवदीय

हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
सामरी खान प्रभाग

अधूरी पड़ी पुलिया निर्माण का पूर्ण कराने की मांग

राजपुर। सेमरा बक्सपुर मार्ग पर अधूरी पड़ी पुलिया के पुनः निर्माण एवं अनियमितता की जांच की मांग याई क्रमांक-8 के पार्श्व अभय जायसवाल ने कलेक्टर से की है। उन्होंने बताया है कि नगर पंचायत के याई क्रमांक-3 से होकर सेमरा बक्सपुर जाने के लिए तीन वर्ष पूर्व तत्कालीन सांसद खलसाय सिंह ने तीन लाख रुपए अपने मद से दिया था। निर्माण एजेंसी नगर पंचायत को बनाया गया था। पुलिया बनने से पूर्व नगर पंचायत चुनाव हुए एवं पुलिया का कार्य बंद हो गया। नगर पंचायत गठन के बाद पार्श्वों ने पुनः कार्य करवाने एवं पूर्ण करने का निर्णय लिया था। लेकिन कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हुआ तथा इसकी फाईल भी कार्यालय से गायब हो गई। पार्श्व अभय जायसवाल ने इसकी शिकायत कलेक्टर सरगुजा से कर इसकी जांच कराए जाने एवं तत्काल पुल-पुलिया निर्माण प्रारंभ कराए जाने की मांग की है ताकि बरसात में आने-जाने की समस्या समाप्त हो सके।

प्रवेश प्रारंभ

ISO 9001:2000 प्रमाणित
अखिल भारतीय स्तर पर
स्थापित मेन्टल कॉमिशन
पई दिव्य से मान्यता प्राप्त

श्री साईं मेडिकल कॉलेज (ए.एम.)

एस.बी.आई. के पास, मटर रोड,
अम्बिकापुर (ह.ग.)

पाठ्यक्रम

B.A.M.S. 3Year

D.A.M.S. 1Year

जॉब की संभावनाएं

योग्यता- 10वीं/12वीं पास

टीया प्रवेश

रिंग रोड, चोपड़ापारा,
अम्बिकापुर

फोन: 07774-923330

हरि शर्मा 13 अगस्त 2007

Agent of Mines
Sami Mines Division
Hindalco Industries Ltd